



# झारखण्ड गजट

## साधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 14 राँची, बुधवार 20 चैत्र, 1941 (श०)  
10 अप्रैल, 2019 (ई०)

#### विषय-सूची

पृष्ठ

पृष्ठ

**भाग 1**—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी 227-230

और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ।

**भाग 1-क**—स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।

**भाग 1-ख**—मैट्रिकुलेसन, आई.ए., आई.एस.सी., बी.ए., बी.एस.सी., एम.ए., एम.ए.सी., लॉ भाग1 और 2, एम.बी.बी.एस., बी.सी.ई., डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।

**भाग 1-ग**—शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।

**भाग-2**—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा

**भाग-2**—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।

**भाग 3**—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएँ और नियम 'भारत गज़ट' और राज्य गज़टों से उद्धरण।

**भाग-4**—झारखण्ड अधिनियम

**भाग-5**—झारखण्ड विधान-सभा में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।

**भाग-7**—संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।

**भाग-8**— भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।

**भाग-9**— विज्ञापन ---

**भाग-9-क**—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएँ

**भाग-9-ख**—निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।

पूरक--

...

...

पूरक "अ"

...

...

## भाग 1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ

-----  
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

-----  
अधिसूचना

28 मार्च, 2019 ई०।

संख्या-13/एल०-101/2018- 1679-- श्री अरूण कुमार सिंह, भा०पु०से०, पुलिस महानिरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड, राँची को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के तहत ब्लाक वर्ष 2018-21 अन्तर्गत अपनी पत्नी श्रीमती रागिनी सिंह के साथ एल०टी०सी० उपभोग करने हेतु दिनांक- 10.05.2019 से 16.05.2019 तक 07 (सात) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त अवधि के लिए श्री सिंह, भा०पु०से० को कोटि वेतन देय होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,  
सरकार के अवर सचिव।

-----

**गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।**

-----

**अधिसूचना**

**29 मार्च, 2019 ई०।**

**संख्या-12/एल०1-1004/2018- 1710--** श्री राजेन्द्र सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, झा०स०पु०-07, हजारीबाग को विभागीय अधिसूचना संख्या-7299, दिनांक-31.12.2018 द्वारा स्वीकृत दिनांक-15.12.2018 से 14.02.2019 तक कुल-62 (बासठ) दिनों के उपार्जित अवकाश को संशोधित करते हुए दिनांक- 01.01.2019 से 14.02.2019 तक कुल-45 (पैंतालीस) दिनों का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

उक्त अवधि में श्री सिंह, रा०पु०से० कोटि वेतन प्राप्त करेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**शैलेश कुमार सिन्हा,**

सरकार के अवर सचिव।

-----

**गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।**

-----

**अधिसूचना**

**29 मार्च, 2019 ई०।**

**संख्या-12/आर०1-1001/2018- 1711--** श्री निर्मल शशि तिकी, पुलिस उपाधीक्षक, झा०स०पु०-10, म०वा० होटवार, राँची को उनके द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के आलोक में झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-74 (ख) के तहत दिनांक- 01.03.2019 पूर्वा० के प्रभाव से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**शैलेश कुमार सिन्हा,**

सरकार के अवर सचिव।

-----

**गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।**

-----

**अधिसूचना**

**01 अप्रैल, 2019 ई०।**

**संख्या- 13/पी1-102/2019- 1777/सी०, --** भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्रांक-434/1/JKD-HP/2019-ES-I, दिनांक-01.04.2019 के आलोक में **श्री अनुराग गुप्ता, भा०पु०से० (ज्ञा:1990), अपर पुलिस महानिदेशक, विशेष शाखा, झारखण्ड, राँची** को अपर पुलिस महानिदेशक, विशेष शाखा, झारखण्ड, राँची के पद से विमुक्त किया जाता है।

2. श्री गुप्ता, भा०पु०से०, दिनांक-02.04.2019 के अप० 01:00 बजे के पूर्व स्थानिक आयुक्त, झारखण्ड भवन, नई दिल्ली के कार्यालय में स्थानिक आयुक्त को रिपोर्ट करेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**शैलेश कुमार सिन्हा,**  
सरकार के अवर सचिव।

-----